



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 5, 2004/पौष 15, 1925

No. 11]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 5, 2004/PAUSA 15, 1925

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कोलकाता, 5 जनवरी, 2004

का.आ. 12(अ).—पटसन तथा पटसन वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2000 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एस. मजुमदार, पटसन आयुक्त एतद्वारा प्रति सौ बोरे की अधिकतम फैक्टरी उत्तर (एक्स फैक्टरी) मूल्य रु० 1681.98 औपबन्धिक रूप से निर्धारित करता हूँ, जिसमें 50 किलोग्राम पैकिंग हेतु उन्हीं बी टवील बोरे जिनका आकार 94 सेंमी. × 57 सेमी./एच. डी. और द्रव्यमान प्रति बोरे 665 ग्राम हो, अन्तिम सिरे प्रति डी. एम. 76(+4,-2) हो तथा पिक्स प्रति डी. एम. 28(+2,-1) जिसमें बोरे की लंबाई के मध्यभाग में एकहरी नीली धारी हो तथा किनारे की किसी भी साइड से लगभग 150 मि. मी. की दूरी पर दो क्रमागत हरे बाने के धागों का बना एक अतिरिक्त पहचान चिन्ह भी हो, जिनमें मजबूत सिलाई की गई हो तथा जो अन्य सभी दृष्टियों से भी भारतीय मानक ब्यूरो के वर्तमान विनिर्देशन (सं. भा. मा. 12650-1997 अद्यतन यथासंशोधित) के अनुरूप हो, दिसम्बर, 2003 के दौरान खरीद अथवा बिक्री की जा सकेगी। प्रत्येक बोरे पर पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा विनिर्दिष्ट मोनोग्राम सहित बोरे पर मुद्रित मिल के नाम के पास भारतीय मानक ब्यूरो का प्रमाण चिन्ह भी हो। भारतीय मानक ब्यूरो के पूर्वोक्त विनिर्देशन में किए गए प्रावधान के अनुसार बोरे की न्यूनतम औसत सारमध्य (ब्रेकिंग स्ट्रेन्थ) ताने की 160 के.जी.एफ. और बाने की 145 के.जी.एफ. हो।

2. जे.सी.आई. से 80% (अर्थात् मिलों को अनिवार्य रूप से भारतीय पटसन निगम से 80% कच्चे पटसन खरीदना होगा) पाट की खरीदगी किये जाने पर उक्त मूल्य (1681.98 रुपये प्रति सौ बोरे) निर्धारित किया गया है। जे.सी.आई. से निर्धारित 80% कच्चे पटसन नहीं क्रय किये जाने की स्थिति में दिसम्बर, 2003 के लिए प्रति 100 बोरे की औपबन्धिक रूप से रु. 1487.14 मूल्य निर्धारित किया गया है।

3. मैसर्स हुगली मिल कं. लिमिटेड तथा अन्य बनाम संघ भारत के 2001 के समादेश याचिका सं. 2280 तथा 2002 के 275 के लंबित मामले में माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेशोपरांत उक्त औपबन्धित मूल्य में संशोधन किया जा सकता है।

4. इस अधिसूचना के अधीन निर्धारित की गई मूल्य में जूट विनिर्माता उपकर अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत देय उत्पाद शुल्क और बिक्रीकर सम्मिलित नहीं हैं एवं खरीददार द्वारा फैक्टरी उत्तर मूल्य के अलावा इन्हें अलग से भुगतान करना होगा।

[फा. सं. 8/3/2003-जूट]

एस. मजुमदार, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES
(OFFICE OF THE JUTE COMMISSIONER)

NOTIFICATION

Kolkata, the 5th January, 2004

S.O.12 (E).— In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2000, I, S. Majumdar, Jute Commissioner, hereby provisionally fix Rs. 1681.98 per 100 bags as the maximum ex-factory price at which B.T. will Jute Bags for 50kg. packing of the size 94 cm × 57 cm / HD., 665 gms. mass per bag, 76(+4, -2) ends per dm, 28(+2, -1) picks per dm., single blue stripe running along the length of the bag at the centre along with additional identification marking of two consecutive green warp threads at a distance of about 150 mm away from any one side of the selvage, dry sewn and conforming in all other respects to the current BIS specification (No. IS: 12650-1997, as amended till date) shall be purchased or sold during the month of December, 2003. Every bag is to be branded with monogram to be specified by DGS&D, Kolkata with the name of the manufacturing mill printed on it as well as BIS certification marking. The average minimum breaking strength shall be 160 kgf for warp way and 145 kgf for weft way as provided in the aforesaid specification of BIS.

2. The above price is fixed considering JCI linkage of 80% (i.e. mills shall compulsorily purchase 80% of raw jute from Jute Corporation of India). Without any linkage of JCI raw jute, the price is fixed provisionally at Rs. 1487.14 per 100 bags for the month of December, 2003.

3. The above provisional prices are subject to revision pending implementation of the order of Hon'ble High Court, Kolkata in the matter of the writ petition No. 2280 of 2001 and 275 of 2002 of M/s. Hooghly Mills Co. Ltd. & Anr. -Vs-Union of India.

4. The price fixed under this Notification shall be exclusive of duty of excise, cess payable under Jute Manufacture Cess Act, 1983 and Sales Tax which shall be paid in addition to the ex-factory price by the purchaser.

[F.No. 8/3/2003-Jute]

S. MAJUMDAR, Jute Commissioner